

BIHAR BOARD CLASS - X

2017

HINDI (हिन्दी)

प्रथम पाली (First Sitting)

समय: 3 घंटे 15 मिनट]

[पूर्णांक : 100

1. (अ) निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें-

वन्य प्राणियों के ह्रास का एक प्रमुख कारण इनका शिकार और इन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए फँसाना है। इनका आर्थिक महत्त्व होने के कारण इनका दोहन होता है। यद्यपि फँसाना, शिकार करना, व्यापार करना कानूनी रूप से वर्जित है, तथापि स्थानीय, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कालाबाजारी एवं तस्करी हो रही है। जिसके कारण वन्य जीवों का तेजी से दोहन हो रहा है। इस पर सरकार द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे लाया जा रहा है और स्थानीय जनता में जागरूकता लाने की भी जरूरत है। बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान का अभयारण्य एक अच्छा उदाहरण है, जहाँ प्रवासी पक्षियों के शिकार एवं व्यापार पर रोकथाम के लिए स्थानीय नागरिकों के सहयोग से जन-जागरण के कार्यक्रम चलाए गए हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय युनेस्को क्लब द्वारा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए यहाँ एक वाच टावर का निर्माण कराया गया है।

निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें। (प्रत्येक 30 शब्दों में)

(क) उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक दें।

(ख) वन्य प्राणियों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है ?

(ग) वन्य प्राणियों के दोहन होने के क्या कारण हैं ?

(घ) बिहार में अभयारण्य कहाँ हैं ?

(ङ) पक्षियों के शिकार पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है ?

(च) जिला प्रशासन द्वारा किस चीज का निर्माण कराया गया है ?

(ब) निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें-

यूरोप में 1942 ई० के बाद जर्मनी और सोवियत संघ के बीच घमासान लड़ाई हुई। इसमें जर्मनी बुरी तरह पराजित हुआ। जर्मनी की इस पराजय में द्वितीय मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरे मोर्चे में अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस और फ्रांस आते थे। इन सबने मिलकर जर्मनी को पराजित करने का प्रयास किया और 6 जून, 1944 ई० को जर्मन सेना परास्त हो गयी। इसके पहले ही इटली पूर्णतः पराजित हो मित्र राष्ट्रों से संधि कर चुका था। अंततः 07 मई, 1947 ई. को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने जुलाई, 1945 ई० में जापान पर भीषण आक्रमण किया। 6 अगस्त, 1945 ई० को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया। फलतः हिरोशिमा का नामोनिशान मिट गया। दूसरा एटम बम 9 अगस्त, 1945 ई० को नागासाकी शहर पर गिराया गया और नागासाकी भी नेस्तनाबूद हो गया। जापान के सामने आत्मसमर्पण के सिवा कोई विकल्प नहीं था और जापान ने 2 सितम्बर, 1945 ई० को आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो गया।

निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें। (प्रत्येक 30 शब्दों में)

(क) यूरोप में 1942 ई० के बाद क्या हुआ ?

(ख) दूसरे मोर्चे में कौन-कौन देश आते थे एवं जर्मन सेना कब और किससे परास्त हुई ?

(ग) अमेरिका ने पहला एटम बम कब और कहाँ गिराया ? उसका क्या परिणाम हुआ ?

(घ) 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ, एवं द्वितीय विश्वयुद्ध कैसे समाप्त हो गया ?

2. दिए गए संकेत विन्दुओं के आधार पर लगभग 250 शब्दों में किसी एक विषय पर निबंध लिखे ।

(क) भारतीय पर्व

(i) भूमिका

(ii) पर्व की महता

- (iii) पर्व मनाने से लाभ
- (iv) पर्व मनाने के कारण हानि
- (v) उपसंहार

(ख) वेरोजगारी की समस्या

- (i) भूमिका
- (ii) सरकार के दावे
- (iii) आम लोगों पर प्रभाव
- (iv) सुझाव
- (v) उपसंहार

(ग) मेरे प्रिय नेता

- (i) भूमिका
- (ii) उनका योगदान
- (ii) उनका महत्त्व
- (iv) प्रिय होने के कारण
- (v) उपसंहार

3. किसी चिड़िया खाना भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने मित्र के पास पत्र लिखें।

अथवा

पुनः नामांकन के लिए प्राधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें।

4. Missing Question

5. Missing Question

6. Missing Question

7. Missing Question

8. लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर ? (उत्तर 30 शब्दों में दें)

9. 'विष के दाँत' कहानी में कहानी का नायक कौन है ? तर्क पूर्ण उत्तर दें। (उत्तर 30 शब्दों में दें)

10. बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? (उत्तर 30 शब्दों में दें)

11. बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था ? (उत्तर 30 शब्दों में दें)

12. Missing Question

13. मन लेहु पै देहु छटाँक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है ? (उत्तर 30 शब्दों में दें)

14. कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती ? (उत्तर 30 शब्दों में दें)

15. भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है ? (उत्तर 30 शब्दों में दें)

16. कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे ? (उत्तर 30 शब्दों में दें)

17. Missing Question

18. 'दही वाली मंगम्मा' कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया ? (उत्तर 30 शब्दों में दें।)

19. "ढहते विश्वास" कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। (उत्तर 30 शब्दों में दें)

20. पाप्पाति कौन थी और वह शहर क्यों लायी गयी थी ? (उत्तर 30 शब्दों में दें।)